

चंडीगढ़, 5 फरवरी- मर्यादा व्यक्ति व समाज के जीवन का प्राण है। यदि सब मर्यादाओं को पालन करें तो यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। ये उद्गार हरियाणा के राज्यपाल प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी ने आज स्थानीय लॉ भवन में जैन धर्म के 153वें मर्यादा महोत्सव के दौरान अपने सम्बोधन में व्यक्त किए। महोत्सव का आयोजन अणुव्रत समिति द्वारा किया गया था।

मर्यादा महोत्सव पर जन-जन को शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कामना की कि सब मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करें। उन्होंने कहा कि मर्यादा किसी भी समाज की मजबूती का प्रमुख आधार है। बिना मर्यादा और अनुशासन के समाज की प्राणवत्ता टिक नहीं पाती और क्षमताएं चुक जाती हैं। इसीलिए तेरापंथ के आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु ने तत्कालीन समाज की दशा को देखते हुए मर्यादाओं का निर्धारण किया था। इन मर्यादाओं का पालन इच्छाओं पर नियंत्रण करके ही किया जा सकता है। इच्छाएं मानव की बुद्धि और आत्मा के दरवाजे बंद कर देती हैं। फिर वह केवल शरीर और मन के अनुसार चलता है। ऐसा व्यक्ति मानव नहीं दानव बन जाता है। उन्होंने कहा कि जिसने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया वही जिन अर्थात जैन कहलाता है।

प्रो0 सोलंकी ने कहा कि भगवान ने सृष्टि बनाने के साथ ही सृष्टि के लिए नियम बनाए जिनमें पूरी सृष्टि चल रही है। लेकिन मानव उनका उल्लंघन करने पर तुला है। वह सुख तो चाहता है लेकिन उसके लिए कोई कीमत नहीं देना चाहता। जीवन को सुख से जीने के लिए कुछ कीमत देनी होती है। वह कीमत है मर्यादा। धर्म, चरित्र, संविधान, व्यवस्था इसी का नाम है। इनका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है और इसीलिए मर्यादा महोत्सव सम्पूर्ण मानव जाति के लिए है।

उन्होंने कहा कि मर्यादाओं का निर्धारण सब पंथों में किया गया है। पंथ की स्थापना करने वाले महापुरुष ने मर्यादा अर्थात एक आचार संहिता दी है। यह आचार संहिता किसी न किसी पुस्तक या ग्रन्थ में दी गई है। इस आचार संहिता का पालन करते हुए सबको धर्माधिष्ठित जीवन जीना चाहिए क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं जय होती है।

समारोह में मुनिश्री विनय कुमार आलोक, जस्टिस राजन गुप्ता, पंजाब के लोकपाल जस्टिस एस0 के0 मित्तल, हरियाणा पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव डॉ0 सुमिता मिश्रा, देशभक्त विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ0 वीरेन्द्र सिंह और पंचकुला की मेयर श्रीमती उपेन्द्र कौर अहलुवालिया ने भी विचार रखे। अणुव्रत समिति के प्रधान मनोज जैन ने सबका धन्यवाद किया।

इस अवसर पर मुनिश्री अभय कुमार जी, जस्टिस रेखा मित्तल और अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।







His Excellency Prof. Kaptan Singh Solanki
Governor of Haryana

Justice Rajan Gupta
& Haryana High Court